

# पे टेलीविज़न वर्गीकरण और दर्शकों को सलाह

पे टेलीविज़न का अर्थ है टेलीविज़न जो एक शुल्क के साथ है (यानी दर्शकों को प्रसारण सिग्नल देखने के लिए भुगतान करना होगा), चाहे वह सदस्यता या अन्य लेनदेन के आधार पर हो। न्यूज़ीलैंड में पे टेलीविज़न प्रसारकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कार्यक्रमों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है (अर्थात मूल्यांकन किया गया है)। निम्नलिखित वर्गीकरण समाचार, समसामयिक मामलों, खेल और लाइव सामग्री को छोड़कर सभी सामग्री पर प्रसारित किए जाने चाहिए। प्रत्येक कार्यक्रम के शुरुआत में वर्गीकरण को दिखाया जाना चाहिए और जहां संभव हो वहां इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड और साथ में मुद्रित गाइड में शामिल किया जाना चाहिए। ब्रॉडकास्टर्स को ऑडियंस एडवाइजरी (दर्शकों को सलाह) का उपयोग करने पर भी विचार करना चाहिए, यदि कार्यक्रम की सामग्री दर्शकों की एक बड़ी संख्या को परेशान, कष्ट या ठेस पहुंचा सकती है।

## वर्गीकरण

## दर्शकों को सलाह

- G** आम देखने के लिए स्वीकृत
- PG** माता-पिता का मार्गदर्शन युवा दर्शकों के लिए अनुशंसित है
- M** 16 साल और उससे अधिक उम्र के परिपक्व दर्शकों के लिए उपयुक्त
- 16** 16 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं देखना चाहिए
- 18** 18 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं देखना चाहिए

- C** सामग्री अप्रसन्न कर सकती है
- L** भाषा अप्रसन्न कर सकती है
- V** हिंसा शामिल है
- S** यौन सामग्री ठेस पहुंचा सकती है

## अवर्गीकृत प्रोग्रामिंग

समाचार, करंट अफेयर्स, खेल और लाइव सामग्री, इसकी विशिष्ट प्रकृति के कारण, वर्गीकरण के अधीन नहीं है। हालांकि, प्रसारकों को बच्चों के हितों और अन्य प्रसारण मानकों के प्रति सावधान रहना चाहिए और जहां उपयुक्त हो वहां दर्शकों को सलाह (यानी एक चेतावनी) शामिल करनी चाहिए।

यदि आपके फ्री-टू-एयर टेलीविज़न पर उपयोग किए जाने वाले वर्गीकरण या दर्शकों को सलाह के बारे में कोई अन्य प्रश्न हैं, तो देखें [WWW.BSA.GOV.NZ](http://WWW.BSA.GOV.NZ) या BSA को 0800 366 996 पर कॉल करें।